

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2016/पौष 30, 1937

No. 156]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2016/ PAUSA 30, 1937

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2016

का.आ. 178(अ).—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित परिक्षेत्र की भूमि से कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ;

और, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के व्यौरें रेखांक संख्या एनटीपीसी/सीएम/एनसीबी/बीएम/15/02, तारीख 6 अक्टूबर, 2015, का निरीक्षण, मुख्य महाप्रबंधक (खोज प्रभाग), केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान, गोंदवाना प्लेस, कांके रोड, रांची - 834 001 या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700 001 के कार्यालय में या कलक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ या महाप्रबंधक, तलईपाली कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, लालूंगा रोड, घरघोड़ा, जिला रायगढ़ - 496111, छत्तीसगढ़ या महाप्रबंधक (कोयला खनन), कोल माइनिंग डिविजन, एनटीपीसी भवन, कोर-7, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 के कार्यालय में किया जा सकता है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से कोयले का पूर्वक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति -

- (i) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन की गयी किसी कार्यवाही से हुई या होने वाली संभाव्य किसी क्षति के लिए अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रतिकर का दावा निम्न को; अथवा
- (ii) उक्त अधिनियम की धारा (13) की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वक्षण अनुज्ञप्तियों के प्रभावहीन होने या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन खनन पट्टे प्रभावहीन होने के संबंध में प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उसे उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मदों की बाबत उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पूर्वोक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को परिदत्त कर सकेगा;

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, महा प्रबंधक, तलईपाली कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, लालूंगा रोड, घरघोड़ा, जिला रायगढ़ - 496111, छत्तीसगढ़ या महाप्रबंधक (कोयला खनन), कोल माइनिंग डिविजन, एनटीपीसी भवन, कोर-7, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 कर सकेगा।

अनुसूची

एनटीपीसी का भालूमुड़ा कोल माइनिंग ब्लॉक

जिला – रायगढ़, छत्तीसगढ़

(रेखांक संख्या एनटीपीसी/सीएम/एनसीबी/बीएम/15/02, तारीख 6 अक्टूबर, 2015)

सभी अधिकार :

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टेयर में (लगभग)	क्षेत्र एकड़ में (लगभग)	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बनाई	01	तमनार	रायगढ़	119.95	296.40	भाग
2.	भालूमुड़ा	14	तमनार	रायगढ़	195.86	483.97	भाग
3.	चिरीमुरा	01	तमनार	रायगढ़	459.10	1134.44	भाग
4.	चितवाही	02	तमनार	रायगढ़	148.06	396.86	भाग
5.	ढोलनारा	14	तमनार	रायगढ़	5.31	13.12	भाग
6.	डोलेसारा	02	तमनार	रायगढ़	3.65	9.02	भाग
7.	केराखोल	01	तमनार	रायगढ़	284.17	702.18	भाग
8.	कोमल	02	तमनार	रायगढ़	234.87	580.36	भाग
9.	रोडोपल्ली	14	तमनार	रायगढ़	46.36	114.56	भाग
10.	नूनदरहा	01	तमनार	रायगढ़	52.63	130.05	भाग
11.	सिलोत आरएफ	-			72.74	179.74	भाग
कुल क्षेत्र :					1622.70	4009.69	

कुल क्षेत्र: 1622.70 हेक्टेयर (लगभग)

या 4009.69 एकड़ (लगभग)

सीमा वर्णन :

- क – क1 : रेखा ग्राम डोलेसारा के उत्तरी भाग में स्थित बिन्दु 'क' से आरंभ होकर उत्तर पश्चिमी दिशा में जाती है और बिन्दु 'क1' पर समाप्त होती है।
- क1 – क2 : रेखा ग्राम चितवाही के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित बिन्दु 'क1' से आरंभ होकर उत्तर पश्चिमी दिशा में जाती है और बिन्दु 'क2' पर समाप्त होती है।
- क2 – क3 : रेखा ग्राम कोलम के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित बिन्दु 'क2' से आरंभ होकर उत्तर पश्चिमी दिशा में जाती है और पाजहार नदी के पास स्थित बिन्दु 'क3' पर समाप्त होती है।
- क3 – क4 : रेखा ग्राम कोलम के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित बिन्दु 'क3' से आरंभ होकर उत्तर दिशा में पाजहार नदी के साथ जाती है और बिन्दु 'क4' पर समाप्त होती है।
- क4 – क5 : रेखा ग्राम चिरीमुरा के दक्षिण भाग में स्थित बिन्दु 'क4' से आरंभ होकर उत्तर दिशा में पाजहार नदी के साथ जाती है और बिन्दु 'क5' पर समाप्त होती है।
- क5 – क6 : रेखा ग्राम बनाई के दक्षिण मध्य में स्थित बिन्दु 'क5' से आरंभ होकर उत्तर दिशा में पाजहार नदी के साथ जाती है और बिन्दु 'क6' पर समाप्त होती है।
- क6 – क7 : रेखा ग्राम केराखोल के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित बिन्दु 'क6' से आरंभ होकर उत्तर पश्चिमी दिशा में पाजहार नदी के साथ जाती है और बिन्दु 'क7' पर समाप्त होती है।
- क7 – क8 : रेखा ग्राम नूनदरहा के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित बिन्दु 'क7' से आरंभ होकर उत्तर पश्चिमी दिशा में जाती है और बिन्दु 'क8' पर समाप्त होती है।
- क8 – क9 : रेखा ग्राम नूनदरहा के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित बिन्दु 'क8' से आरंभ होकर दक्षिण-पूर्वी दिशा में जाती है और बिन्दु 'क9' पर समाप्त होती है।
- क9 – क10 : रेखा ग्राम केराखोल के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित बिन्दु 'क9' से आरंभ होकर दक्षिण-पूर्वी दिशा में जाती है और बिन्दु 'क10' पर समाप्त होती है।
- क10– क11 : रेखा सिलोट आरएफ के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित बिन्दु 'क10' से आरंभ होकर दक्षिण-पूर्वी दिशा में जाती है और बिन्दु 'क11' पर समाप्त होती है।
- क11-क12 : रेखा ग्राम केराखोल के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित बिन्दु 'क11' से आरंभ होकर दक्षिणी पूर्वी दिशा में जाती है और बिन्दु 'क 12' पर समाप्त होती है।
- क12-क13 – रेखा सिलोट आरएफ के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित बिन्दु 'क12' से आरंभ होकर दक्षिणी पूर्वी दिशा में जाती है और बिन्दु 'क 13' पर समाप्त होती है।
- क13-क14 : रेखा ग्राम रोडोपल्ली के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित बिन्दु 'क13' से आरंभ होकर दक्षिण पूर्वी दिशा में जाती है और बिन्दु 'क 14' पर समाप्त होती है।

- क14-क15 : रेखा सलोट आरएफ के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित बिन्दु 'क14' से आरम्भ होकर दक्षिणी पूर्वी दिशा में जाती है और बिन्दु 'क 14' पर समाप्त होती है।
- क15- क16 : रेखा ग्राम रोडोपल्ली के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित बिन्दु 'क15' से आरंभ होकर दक्षिणी पूर्वी दिशा में जाती है और बिन्दु 'क16' पर समाप्त होती है।
- क16- का17 : रेखा ग्राम ढोलनारा के उत्तर भाग में स्थित बिन्दु 'क16' से आरंभ होकर दक्षिण पूर्वी दिशा में जाती है और बिन्दु 'क17' पर समाप्त होती है।
- क17-क18 : रेखा ग्राम ढोलनारा के उत्तर भाग में स्थित बिन्दु 'क17' से आरंभ होकर दक्षिण पश्चिमी दिशा में जाती है और बिन्दु 'क18' पर समाप्त होती है।
- क18-क19 : रेखा ग्राम रोडोपल्ली के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित बिन्दु 'क18' से आरंभ होकर दक्षिण पश्चिमी दिशा में जाती है और बिन्दु 'क19' पर समाप्त होती है।
- क19- क20' : रेखा ग्राम भालूमुडा के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित बिन्दु 'क19' से आरंभ होकर दक्षिण पश्चिमी दिशा में जाती है और बिन्दु 'क20' पर समाप्त होती है।
- क20 –क21 : रेखा ग्राम चितवाही के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित बिन्दु 'क20' से आरंभ होकर दक्षिण पश्चिमी दिशा में जाती है और बिन्दु 'क21' पर समाप्त होती है।
- क 21- क22 : रेखा ग्राम रोडोपल्ली के पश्चिमी भाग में स्थित बिन्दु 'क21' से आरंभ होकर दक्षिण दिशा में जाती है और बिन्दु 'क22' पर समाप्त होती है।
- क 22- क23 : रेखा ग्राम चितवाही के पूर्वी भाग में स्थित बिन्दु 'क22' से आरंभ होकर दक्षिण दिशा में जाती है और बिन्दु 'क23' पर समाप्त होती है।
- क 23– क1 : रेखा ग्राम डोलेसारा के उत्तर भाग में स्थित बिन्दु 'क23' से आरंभ होकर दक्षिण दिशा में जाती है और बिन्दु 'क1' पर समाप्त होती है।

[फा. सं. 43015/22/2015-पीआरआईडब्ल्यू-I]

आर. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2016

S.O. 178(E).—Whereas, it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the land in the locality described in the Schedule annexed hereto;

And, whereas, the plan bearing number NTPC/CM/NCB/BN/15/01, dated the 6th October, 2015 containing the details of the areas of land described in the said Schedule may be inspected at the office of the Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi-834001 or at the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata - 700001 or at the Office of the Collector, District Raigarh, Chhattisgarh or at the Office of the

General Manager, Talaipalli Coal Mining Project, NTPC Limited, Lailunga Road, Ghargoda, District Raigarh-496111, Chhattisgarh or at the office of the General Manager (Coal Mining), Coal Mining Division, NTPC Bhawan, Core-7, SCOPE Complex, 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal from land described in the said Schedule;

Any persons interested in the land described in the said Schedules may—

- (i) claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub-section (3) of section 4 thereof; or
- (ii) claim compensation under sub-section (1) of section 13 of the said Act in respect of prospecting licenses ceasing to have effect or under sub-section (4) of section 13 of the Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of section 13 of the said Act;

to the Office of the General Manager, Talaipalli Coal Mining Project, NTPC Limited, Lailunga Road, Ghargoda, District Raigarh-496111, Chhattisgarh or at the Office of the General Manager (Coal Mining), Coal Mining Division, NTPC Bhawan, Core-7, SCOPE Complex, 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003, within a period of ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Bhalumuda Coal Mining Block of NTPC Limited

District Raigarh (Chhattisgarh)

(Plan bearing number NTPC/CM/NCB/BN/15/02, dated the 6th October, 2015)

Sl. No.	Name of Village	Patwari halka number	Tehsil	District	Area in hectares (approximately)	Area in acres (approximately)	Remarks
1.	Banai	01	Tamnara	Raigarh	119.95	296.40	Part
2.	Bhalumuda	14	Tamnara	Raigarh	195.86	483.97	Part
3.	Chirimura	01	Tamnara	Raigarh	459.10	1134.44	Part
4.	Chitwahi	02	Tamnara	Raigarh	148.06	396.86	Part
5.	Dholnara	14	Tamnara	Raigarh	5.31	13.12	Part
6.	Dolesara	02	Tamnara	Raigarh	3.65	9.02	Part
7.	Kerakhola	01	Tamnara	Raigarh	284.17	702.18	Part
8.	Kolam	02	Tamnara	Raigarh	234.87	580.36	Part
9.	Rodopali	14	Tamnara	Raigarh	46.36	114.56	Part
10.	Nundarha	01	Tamnara	Raigarh	52.63	130.05	Part
11.	Silot RF	-			72.74	179.74	Part
Total Area :					1622.70	4009.69	

Total area: 1622.70 hectares (approximately)
or 4009.69 acres (approximately)

Boundary description:

- A -A1: The line starts at point 'A' in the North part of the Dolesara village, trending in North Westerly direction and ends at 'A1'.
- A1-A2: The line starts at point 'A1' in the South Western part of the Chitwahi village, trending in North Westerly direction and ends at 'A2'.
- A2-A3: The line starts at point 'A2' in the South Western part of the Kolam village, trending in North Westerly direction and ends at 'A3' at Pajhar Nadi intersection.

- A3-A4: The line starts at point 'A3' in the South Western part of the Kolam village, trending in North y direction along with Pajhar Nadi and ends 'A4'.
- A4-A5: The line starts at point 'A4' in the South part of the Chirimura village, trending in Northly direction along with Pajhar Nadi and ends at 'A5'.
- A5-A6: The line starts at point 'A5' in the Southern middle part of the Banai village, trending in Northly direction all along with Pajhar Nadi and ends at 'A6'.
- A6-A7: The line starts at point 'A6' in the South Western part of the Kerakhol village, trending in North Westerly direction along with Pajhar Nadi and ends at 'A7'.
- A7-A8: The line starts at point 'A7' in the South Western part of the Nundarha village, trending in North Westerly direction along with Pajhar Nadi and ends at 'A8'.
- A8-A9: The line starts at point 'A8' in the North Western part of the Nundarha village, trending in South Easterly direction and ends at 'A9'.
- A9-A10: The line starts at point 'A9' in the North Eastern part of the Kerakhol village, trending in South Easterly direction all and ends at 'A10'.
- A10-A11: The line starts at point 'A10' in the South Western part of the Silot Reserve Forest trending in South Easterly direction and ends at 'A11'.
- A11-A12: The line starts at point 'A11' in the North Eastern part of the Kerakhol village, trending in South Easterly direction and ends at 'A12'.
- A12-A13: The line starts at point 'A12' in the South Western part of the Silot Reserve Forest, trending in South Easterly direction and ends at 'A13'.
- A13-A14: The line starts at point 'A13' in the North Eastern part of the Rhodopali village, trending in South Easterly direction and ends at 'A14'.
- A14-A15: The line starts at point 'A14' in the South Western part of the Silot Reserve Forest, trending in South Easterly direction and ends at 'A15'.
- A15-A16: The line starts at at point 'A15' in the North Eastern part of the Rhodopali village, trending in South Easterly direction and ends at 'A16'.
- A16-A17: The line starts at point 'A16' in the Northern part of the Dholnara village, trending in South Easterly direction and ends at 'A17'.
- A17-A18: The line starts at point 'A17' in the Northern part of the Dholnara village, trending in South Westerly direction and ends at 'A18'.
- A18-A19: The line starts at point 'A18' in the South Easterly part of the Rodopali village, trending in South Westerly direction and ends at 'A19'.
- A19-A20: The line starts at point 'A19' in the South Eastern part of the Bhalumuda village, trending in South Westerly direction and ends at 'A20'.
- A20-A21: The line starts at point 'A20' in the North Eastern part of the Chitwahi village, trending in South Westerly direction and ends at 'A21'.
- A21-A22: The line starts at point 'A21' in the Western part of the Rhodopali village, trending in Southern direction and ends at 'A22'.
- A22-A23: The line starts at point 'A22' in the Eastern part of the Chitwahi village, trending in Southern direction and ends at 'A23'.
- A23-A: The line stars at point 'A23' in the Northern part of Dolesara village, trending in Southern direction and ends at 'A'.

[F. No. 43015/22/2015-PRIW-I]

R. K. SINHA, Jt. Secy.